

विद्याभवन बालिका विद्यापीठ लखीसराय

कक्षा - सप्तम

दिनांक -14 - 08 - 2021

विषय -हिन्दी

विषय शिक्षक -पंकज कुमार

एन, सी, ई, आरटी, पर आधारित

सुप्रभात बच्चों आज अनेक शब्दों के एक शब्द के बारे में अध्ययन करेंगे

अनेक शब्दों के एक शब्द

च , छ से शुरू होने वाले शब्द

छिपाने योग्य = गोपनीय

छोटे से छोटे दोषों की खोज करने वाला = छिद्रावेषी

चन्द्रमा जैसे मुख वाली = चन्द्रमुखी

छात्रों के रहने का स्थान = छात्रवास

चार मुखों वाला = चतुरानन

चार वेदों को जानने वाला = चतुर्वेदी

चार राहों वाला = चौराहा

चेतन स्वरूप की माया = चिद्विलास

चूहे फंसाने का पिंजरा = चूहेदानी

चौथे दिन आने वाला ज्वर = चौथिया

चारों ओर की सीमा = चौहदी

चारों ओर जल से घिरा हुआ भू भाग = टापू

चोरी छिपे चुंगी शुल्क आदि दिए बिना माल लाकर बेचनेवाला = तस्कर

चौपायों के बाँधने का स्थान = थान

चिंता में डुबा हुआ = चिंतित

चुनाव में अपना मत देने की क्रिया = मतदान

छिपे वेश में रहना = छद्मवेश

छः महीने के समय से संबंधित = छमाही

छोटे कद का आदमी = बौना

छ कोनों वाली आकृति = षट्कोण

छ-छ महीने पर होने वाला = षण्मासिक

छूत से फैलने वाला रोग = संक्रामक

छः मुँहों वाला = षण्मुख , षडानन

अनेक शब्दों के एक शब्द

भ, म से शुरू होने वाले

मास में एक बार आने वाला = मासिक

मांस खाने वाला = मांसाहारी

भारत में रहने वाला = भारतीय

भगवान में विश्वास रखने वाला = आस्तिक

भगवान में विश्वास न रखने वाला = नास्तिक

मांस रहित भोजन = निरामिष

मोक्ष का इच्छुक = मुमुक्षु

मृत्यु का इच्छुक = मुमुर्षू

मधुर बोलने वाला = मधुरभाषी

माया करने वाला = मायावी

मध्यरात्रि का समय = निशीथ

भलाई की इच्छा रखने वाला = हितैषी

भलाई चाहने वाला = हितैषी

भली प्रकार से सिखा हुआ = अभ्यस्त

भविष्य में होनेवाला = भावी

भूख से व्याकुल = क्षुधातुर

भूत-वर्तमान- भविष्य को देखने वाले = त्रिकालदर्शी